



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

#### फेसबुक पर फर्जी एकाउंट बनाकर अश्लील पोस्ट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय सीतापुर द्वारा साइबर अपराधों पर नियंत्रण हेतु टीम गठित कर साइबर क्राइम सेल को निर्देशित किया गया था। सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिये अभद्र, अश्लील पोस्ट करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में साइबर क्राइम सेल व थाना अटरिया की संयुक्त टीम द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 04-01-2021 को थाना रामपुर कलां क्षेत्र के आवेदक द्वारा थाना रामपुरकलां पर प्रार्थना पत्र दिया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी छोटी बहन के नाम व फोटो का उपयोग कर सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर फर्जी खाता तैयार कर लिया गया है एवं बहन की फोटो से छेड़छाड़ कर अश्लील रूप में व अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुये व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर के साथ पोस्ट अपलोड की गई है। जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुर कलां में मु0अ0सं0 04/2021 धारा 419/500 भा0द0वि0 व 66सी/67बी आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निर्देशन में साइबर सेल व विवेचनाधिकारी श्री बृजेश कुमार राय प्रभारी निरीक्षक अटरिया को अज्ञात फेसबुक उपयोगकर्ता को चिन्हित करने व गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम आज दिनांक 06-01-2021 को साइबर सेल व थाना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्य करते हुए अल्प समय में 01 अभियुक्त राहुल यादव पुत्र सुरेन्द्र कुमार यादव निवासी जयरामनगर कस्बा व थाना सिधौली जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है। अभियुक्त के कब्जे से अपराध में उपयोग किया गया मोबाइल मय साक्ष्य के बरामद हुआ है।

**नाम पता अभियुक्त-** राहुल यादव पुत्र सुरेन्द्र कुमार यादव निवासी जयरामनगर कस्बा व थाना सिधौली जनपद सीतापुर।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 04/2021 धारा 419/500 भा0द0वि0 व 66सी,67बी आई0टी0 एक्ट थाना रामपुर कला सीतापुर।

**माल बरामदगी-** एक अदद वीवो एन्ड्राइड मोबाइल फोन

## साइबर सेल टीम

निरीक्षक श्री विजयवीर सिंह सिरोही, का0 रोहित तोमर कुमार, का0 भूपेन्द्र राणा

## थाना पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार राय, का0 शिवम कुमार कुशवाहा, म0का0 दीपक चाहर, म0का0 किरन यादव, म0का0 ज्योति शर्मा

